



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 426 राँची, बुधवार

27 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

17 जून, 2015 (ई०)

JKT; fuokbu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

9 जून, 2015

संख्या: 03नि०-94/2011 रा०नि०आ० 1457 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तथ्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायांचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, बोकारो के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क सहपठित, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्हित किया जाता है ।

०१	२	fuokpu {ks	u& ,oairk	dkj.k
1	2	3	4	5
1	ckdkjkls	XV ckdkjk@xkse; k&01	i frek noh] xte&i pel\$ i k0&j gkou xkse; k] Fkk0& xkse; k] ckdkjkls	fuokpu 0; ; ka dh y{kk nlf[ky djuse&vl Qy jgA
2		XV ckdkjk@xkse; k&01	'kʃ'kyk 'kekJ xte&[kEgj k] Fkkuk&vkbDbD, y] xkse; k] ckdkjkls	fuokpu 0; ; ka dh y{kk nlf[ky djuse&vl Qy jgA
3		XV ckdkjk@xkse; k&02	I &hrk I kju] xte&psy; kVW] Vksy&fcj I k] i k0&gjfn; kekJ xkse; k] ckdkjkls	fuokpu 0; ; ka dh y{kk nlf[ky djuse&vl Qy jgA
4		XV ckdkjk@xkse; k&03	d".k fu"kn] xte+i k0&Lokk] Fkkuk&xkse; k] ckdkjkls	fuokpu 0; ; ka dh y{kk nlf[ky djuse&vl Qy jgA
5		XV ckdkjk@cjek&04	djhphu v& kjh] xte&ubz cLrt] i k0\$Fkkuk&ckdkjkls Fkely] cjek\$ ckdkjkls	fuokpu 0; ; ka dh y{kk nlf[ky djuse&vl Qy jgA

6	XV ckdkjk@cjek&04	fd'kj d <sup>h</sup> kj] xte&xkfolnij] i k <sup>h</sup> &ckdkjks Fke <sup>h</sup> y] cj ek ckdkjk <sup>h</sup>	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
7	XV ckdkjk@cjek&04	ege <sup>n</sup> dj s kh] Xk <sup>h</sup> te&ckfM; k] i k <sup>h</sup> &dFkkj k] ckdkjks	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
8	XV ckdkjk@cjek&04	; kx <sup>n</sup> fxfj] xte&xkfolnij] ckdkjks Fke <sup>h</sup> y] ckdkjks	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
9	XV ckdkjk@cjek&04	I jsk ?k <sup>h</sup> h] xte&tjok cLrh] ckdkjks Fke <sup>h</sup> y] ckdkjk <sup>h</sup>	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
10	XV ckdkjk@cjek&05	psryky egr <sup>h</sup> xte&c <sup>h</sup> dkjks i 0] Fkk0&x <sup>n</sup> khuxj] ckdkjk <sup>h</sup>	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
11	XV ckdkjk@cjek&05	yky ckcq i Vsy] xte&ckjhxtel] i k <sup>h</sup> &l Ms cktkj] cj ek ckdkjks	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
12	XV ckdkjk@uokMhg&06	I phrk noh] xte i k <sup>h</sup> &l j gh] Fkkuk&uokMhg] ckdkjks	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
13	XV ckdkjk@uokMhg&06	I phrk noh] xte&fi yfi y <sup>h</sup> i k <sup>h</sup> &ukjk; .ki j] ukokMhg] ckdkjks	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
14	XV ckdkjk@uokMhg&07	vk'kk noh] xte&dpuij] i k <sup>h</sup> &ry <sup>h</sup> Fkk0&uokMhg] ckdkjks	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
15	XV ckdkjk@uokMhg&07	ykdeuh noh] xte i k <sup>h</sup> &xqtkjMhg] Fkk0&uokMhg] ckdkjks	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
16	XV ckdkjk@plnijk&08	vfeccdk i l kn] xte\$ i k <sup>h</sup> &ry <sup>h</sup> Fkk0&uokMhg] plnijk] ckdkjks	fuokpu 0; ; k <sup>h</sup> dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA

17	XV ckdkjk@plnijk&08	uñnyky egrk xte&[kyrk ik&ryk FkkO&ukokMhg] plnijk ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
18	XV ckdkjk@plnijk&09	iue fl g] U; qñ/kk dñ/kk uñ/kk ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
19	XV ckdkjk@plnijk&09	jkf/kdk noh] xte&uik Vkyk nñ/kk ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
20	XV ckdkjk@plnijk&09	I fjrk noh] xte\$+k&djekVM] ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
21	XV ckdkjk@plnijk&09	I ërh noh] døV Vkyk nñ/kk ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
22	XV ckdkjk@iVjokj&10	?kqgkW nk] xte&fi Njh Vkyk dj .kMhg] ik&fi Njh iVokj] ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
23	XV ckdkjk@iVjokj&11	xak/kj dfn; k] xte&pj xh] iVokj] ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
24	XV ckdkjk@iVjokj&11	eukoj ee] xte&pj xh] iVokj] ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
25	XV ckdkjk@dl ekj&12	fejk iW] xte&e/kpjij] dl ekj] ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
26	XV ckdkjk@dl ekj&13	xhrk oek] xte+ko&cxnk] dl ekj] ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
27	XV ckdkjk@dl ekj&13	fnyhi dëkj egrk] xte&djk djk dl ekj] ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA

28	XV ckdkjk@dI ekj&13	I pñø ek>h] xte&ykfd; kjh] cxnk] dI ekj] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
29	XV ckdkjk@tjhMhg&14	bñzthr gkd nk] xte&ckjkmhg] Fkk&tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
30	XV ckdkjk@tjhMhg&14	Nk/sky jktokh] xte&x>uMhg] i k&i Fkj; k] tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
31	XV ckdkjk@tjhMhg&14	ckusoj egrks xte&ckjgefI ; k] xkaktkjh] tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
32	XV ckdkjk@tjhMhg&14	folkkir Hkk. k egrks xte&ckjkmhg] Fkk& tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
33	XV ckdkjk@tjhMhg&14	Jh/kj dekj egrks xte&i k& xkaktkjh] tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
34	XV ckdkjk@tjhMhg&14	fI dkpj.k ek>h] xte&csyMhg] i k&vjkt] tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
35	XV ckdkjk@tjhMhg&14	I fe=k ckyk] xte&i k&fpyxMMk] tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
36	XV ckdkjk@tjhMhg&15	Vkkjk jkuh] xte&VkkckyhMhg] i k&tukekM+tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
37	XV ckdkjk@tjhMhg&15	uh: noh] xte&tukcLrh] tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
38	XV ckdkjk@tjhMhg&15	Qyok noh] xte&ckMhg] i k&tukekM+tjhMhg] ckdkjk	fuokpu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA

39	XV ck <sub>o</sub> lkjk@tjhMhg&15	I el y fu'kk] xte&c <sub>o</sub> lkMhg] i k0&t <sub>o</sub> kekM+ tjhMhg] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
40	XV ck <sub>o</sub> lkjk@pkl &16	deyh n <sub>o</sub> h] xte&d <sub>o</sub> l <sub>o</sub> gfj ; k] i k0&tjhMhg] Fkk0&ckyhMhg] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
41	XV ck <sub>o</sub> lkjk@pkl &17	ul jhu tgku] xte&mdjh <sub>o</sub> n] i k0Fkk0&l DVj &12] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
42	XV ck <sub>o</sub> lkjk@pkl &17	i frek pVth] xte&Hkk <sub>o</sub> ck cktkj] ukjk; .ki j] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
43	XV ck <sub>o</sub> lkjk@pkl &17	I jk <sub>o</sub> kyk n <sub>o</sub> h] xte&fj r <sub>o</sub> Mhg xlkjkbZ Vksyk] i k0&fl ouMhg] Fkk0&ekj kQkj h] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
44	XV ck <sub>o</sub> lkjk@pkl &18	vfu: ) pl <sub>o</sub> kj h] xte&fe/kk] i k0&l j nk <sub>o</sub> gk] Fkk0& fi .Mktkj k] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
45	XV ck <sub>o</sub> lkjk@pkl &18	x <sub>o</sub> ghjke mjko] xte&Vi jk] Fkk0&fi .Mktkj k] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
46	XV ck <sub>o</sub> lkjk@pkl &18	thr <sub>o</sub> nz ukFk egrk] xte&d <sub>o</sub> lnkMhg] i k0\$Fkk0&fi .Mktkj k] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
47	XV ck <sub>o</sub> lkjk@pkl &18	i ekuln egrk] xte&vkejke] i k0&myxkmh] Fkk0&fi .Mktkj k] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
48	XV ck <sub>o</sub> lkjk@pkl &18	j <sub>o</sub> tr egrk] xte&vkejke] i k0&myxkmh] Fkk0&fi .Mktkj k] ck <sub>o</sub> lkjks	fuokbu 0; ; kadh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA

49	XV ckdkjk@pkl &18	'kkdkk jkuh egrks xte\$ i k0&myxMk] Fkk0&fi .Mktkjks ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
50	XV ckdkjk@pkl &18	gkcyky xkjkb] xte&fl tok xkjkbz VksykJ i k0&l jnkgl Fkk0&fi .Mktkjks ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
51	XV ckdkjk@pkl &19	vtp egrks xte&dk.Mk] VksykJ&ycMhg] ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
52	XV ckdkjk@pkl &19	d: .kk fl g] xte&xki hMhg] [kekjctnh pkl ] ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
53	XV ckdkjk@pkl &19	xak/kj egyh] xte&fnokuxat] i k0&djkl Fkkuk&fi .Mktkjks ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
54	XV ckdkjk@pkl &19	fp=xtr >k] xte&ekej dnpj] i k0&nkhxktj] Fkk0&pkl ] ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
55	XV ckdkjk@pkl &19	t; no fl g] xte&ychMhg] i k0&djkl Fkk0& fi .Mktkjks ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
56	XV ckdkjk@pkl &19	r: .k dplj 'kek] xte&i qM: ] ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
57	XV ckdkjk@pkl &19	ekfud plh] xte&Mkcjcqky] Fkk0&pkl e@] ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
58	XV ckdkjk@pkl &19	ekgu nkl ] xte&rjhMhg] i k0&pkl ] ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
59	XV ckdkjk@pkl &19	f'ko 'kdj i kn] xte&ychMhg] i k0&djkl Fkkuk&fi .Mktkjks ckdkjk	fuokbu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA

60	XV ck <del>dkjk</del> @pkl &20	mfeyk noh] xte&ckā.k f}fjd <del>k</del> Fkk0&pkl e@] ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
61	XV ck <del>dkjk</del> @pkl &20	dkjyk noh] xte&d <del>f</del> gj <del>h</del> ] Fkk0&pkl e@] ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
62	XV ck <del>dkjk</del> ks@pkl &20	xhrk noh] xte&pkQku] Fkk0&gj <del>y</del> ] ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
63	XV ck <del>dkjk</del> ks@pkl &20	'k <del>kr</del> hi noh] xte&jkuhi k[ <del>kj</del> ] i <del>k</del> &c <del>sk</del> ekj <del>k</del> ] Fkk0&gj <del>y</del> ] ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
64	XV ck <del>dkjk</del> ks@pkl &21	xk <del>f</del> e p <del>l</del> nz j <del>t</del> okj] xte&fr <del>y</del> kV <del>M</del> ] i <del>k</del> &vey <del>k</del> c <del>n</del> v <del>p</del> y&p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
65	XV ck <del>dkjk</del> ks@pkl &21	xk <del>f</del> p <del>l</del> nz j <del>t</del> okj] xte&egky] V <del>k</del> yk&H <del>k</del> M <del>k</del> h ck <del>kk</del> ] i <del>k</del> &egky] p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
66	XV ck <del>dkjk</del> ks@pkl &21	fnyhi d <del>e</del> kj nk <del>l</del> ] xte&i <del>o</del> egky] i <del>k</del> &egky] p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
67	XV ck <del>dkjk</del> ks@pkl &21	ukjk; .k j t d] xte&n <del>o</del> xte] i <del>k</del> &egky] p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
68	XV ck <del>dkjk</del> ks@p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h&22	vfurk noh] xte&veMhgk] i <del>k</del> &j <del>k</del> kefV; k] v <del>p</del> y&p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
69	XV ck <del>dkjk</del> ks@p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h&22	m"kk noh] xte&p <del>n</del> k] i <del>k</del> &p <del>l</del> nk p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h ck <del>dkjk</del> ks	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA
70	XV ck <del>dkjk</del> ks@p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h&22	j <del>kk</del> noh] xte i <del>k</del> &p <del>l</del> nk p <del>n</del> ufd; k <del>j</del> h	fuokbu 0; ; kadh y <del>kk</del> nkf[ky djuseavl Qy jgA

71	XV ckdkjk@pnufd;kjh&22	gekorh egrk xke&okxyk ik&xyxyVM pnufd;kjh ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh ykk nkf[ky djuseavl Qy jgA
72	XV ckdkjk@pkl & 17	I f; k nph] xk0&pljk] ukjk; .ki j] Fk0& fi .Mktjk] ckdkjks	fuokpu 0; ; kadh ykk nkf[ky djuseavl Qy jgA

jkT; fuokpu vk; Dr ds vknsk I §

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jkT; fuokpu vk; lkx  
>kj [k.M] jkph A

-----